



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०२ पटना, बुधवार, २३ पौष, १९३१ (श०)
१३ जनवरी, २०१० (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क
	११-१२

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

1 जनवरी 2010

सं० प्र०-6/नियम-01/09-06(एस)—बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थ न्यायाधिकरण नियमावली, 2009 के नियम 12 (6) में निहित प्रावधानों के तहत श्री शशिभूषण वर्मा, सेवा-निवृत्त संयुक्त सचिव, बिहार सरकार, जो पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं० 280, दिनांक 3 सितम्बर 2009 सह-पठित ज्ञापांक 9724(एस०), दिनांक 3 सितम्बर 2009 के आलोक में दिनांक 3 सितम्बर 2009 के प्रभाव से बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थ न्यायाधिकरण में सचिव के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत हैं, को बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थ न्यायाधिकरण में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री वर्मा की नियुक्ति बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थ न्यायाधिकरण नियमावली, 2009 के नियम 12 (3) के आलोक में दिनांक 3 सितम्बर 2009 की तिथि से अगले 3 (तीन) वर्षों के लिए वैध होगी।

3. इनकी सेवा के अन्य शर्त बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थ न्यायाधिकरण नियमावली के नियम 13 में यथा उपबधित प्रावधानों के अनुसार होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रत्यय अमृत, सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

31 दिसम्बर 2009

सं० 6/पणन (स) 143/07-6395—खान एवं भूतल्य विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 1865, दिनांक 14 अक्टूबर 2009 के आलोक में लघु एवं मध्यम वर्ग के औद्योगिक इकाइयों को नियमित एवं पारदर्शी तरीके से उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से गठित राज्य स्तरीय समिति के लिए सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव को सचिव, सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुप्तेश्वर प्रसाद, अवर सचिव।

30 नवम्बर 2009

सं० 1/रा.स्था. (3)—आरोप-013/2009-5782—श्री चक्रधर झा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ का प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया जाता है।

यह आदेश तुरंत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

5 जनवरी 2010

सं० 1/रा.स्था.वि.स.से.पद.-69/07-29—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2498 वि.(2), दिनांक 12 अप्रैल 2007 के साथ पठित बिहार सेवा संहिता के नियम 220 के तहत श्रीमती शशिबाला रावल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय अंचल, दलसिंहसराय को दिनांक 20 अक्टूबर 2009 से 3 मार्च 2010 तक (कुल 135 दिन) मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश अवधि के लिए उपर्युक्त वर्णित संकल्प में उल्लिखित शर्त लागू होंगी।

श्रीमती रावल के मातृत्व के अवकाश अवधि में श्री मो. जैनुल आबदीन अंसारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटोरी अंचल, पटोरी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय अंचल, दलसिंहसराय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कौशल किशोर मिश्र, अवर सचिव।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

5 नवम्बर 2009

सं० प्र-1/रा० स्था०-23/2009-18-4246—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 14/पद०-208/09 का० 10326, दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार बि०प्र०से० को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना के संयुक्त सचिव के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी 2010

सं० 1/प्रा०आ०-11/2006 (खण्ड)०1-आ०प्र०—विभागीय अधिसूचना संख्या 1824, दिनांक 15 जुलाई 2008 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 की उप-धारा 2 (b) के अधीन श्री निशीकान्त सिन्हा, भा०प्र०से० (सेवा-निवृत्त), सी०-II/41, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011, को सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री सिन्हा ने उक्त पद से अपना त्यागपत्र समर्पित किया है जिसे आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली 2008 के नियम 6 के अधीन दिनांक 11 दिसम्बर 2009 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार सिंह, उप-सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2009

सं० 6 प्रो०-6-03/2007-5351/वा० क०—वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3 एम० 2-5-वे० पु०-28/99-4685 वि० (2), दिनांक 25 जून 2003 एवं 3 एम० 2-5-वे० पु०-28/99-1802 वि०(2), दिनांक 23 मार्च 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार वित्त सेवा के निम्नलिखित वाणिज्य-कर पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पुराना वेतनमान् रु० 6,500-200-10,500 एवं रु० 8,000-13,500; नया औपबंधिक वेतनमान् रु० 15,600-39,100+5,400 ग्रेड-पे से उच्चतर पुराना वेतनमान् रु० 10,000-325-15,200; नया औपबंधिक वेतनमान् रु० 15,600-39,100+6,600 ग्रेड-पे में प्रथम वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन स्थान	मूल वरीयता क्रमांक	प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि
1.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मधुबनी अंचल, मधुबनी।	127	10-12-2004

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन स्थान	मूल वरीयता क्रमांक	प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि
2.	श्री मृणाल कुमार, वाणिज्य—कर पदाधिकारी, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।	160	13-5-2004
3.	श्री अक्षय कान्त झा, वाणिज्य—कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल, पटना।	207	25-6-2005
4.	श्री सौरभ कुमार सिंह, वाणिज्य—कर पदाधिकारी, पटना पश्चिमी अंचल, पटना।	208	28-6-2005
5.	श्री विजय कुमार आजाद (अ०जा०), वाणिज्य—कर पदाधिकारी (अंकेक्षण), भागलपुर	229	21-6-2005

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मियों का वेतन नियतन बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम 7 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के नियम 8 (1) के अधीन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी कर्मों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मों को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० शमीम, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 43—571+60-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

(सं० 5/सह./फ.बी. -44/09 पार्ट-6382)

सहकारिता विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय : रब्बी, 2009-10 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना के रूप में लागू करने की स्वीकृति से संबंधित ।

पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिलों में रब्बी 2009-10 मौसम में लागू करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 4952, दिनांक 30 अक्टूबर 2009 निर्गत किया गया था। उक्त संकल्प के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., पटना द्वारा आलू फसल के लिए चयनित जिलों के निमित्त समर्पित Term Sheet के Maximum Temperature के कॉलम में Min Temperature के आँकड़े अंकित हो गये हैं, जिसे जिलावार निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :-

Potato		Cover - 2		Max Temperature
क्र० सं.	जिला का नाम	01 जनवरी - 15 जनवरी	16 जनवरी - 31 जनवरी	01 फरवरी - 14 फरवरी
1	2	3	4	5
1	पटना	25.5 ⁰ C	26.5 ⁰ C	28.0 ⁰ C
2	नालंदा	26.0 ⁰ C	27.5 ⁰ C	29.0 ⁰ C
3	मुजफ्फरपुर	25.5 ⁰ C	26.5 ⁰ C	27.5 ⁰ C
4	सुपौल	25.0 ⁰ C	26.5 ⁰ C	28.0 ⁰ C
5	पूणियाँ	25.0 ⁰ C	26.5 ⁰ C	29.0 ⁰ C
6	पूर्वी चम्पारण	24.0 ⁰ C	25.0 ⁰ C	27.0 ⁰ C

इसी तरह एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., पटना द्वारा जिलावार/प्रखंडवार प्रेषित Weather Station में नालंदा जिला के कुछ प्रखंडों का नाम छूट गया था, जिसे निम्न रूपेण समेकित किया जाता है :-

क्रम सं.	जिला का नाम	आच्छादित प्रखंडों का नाम	RWS's	Back-upWS's
1	2	3	4	5
1	नालंदा	(1) बिहार शरीफ, (2) हरनौत, (3) रहुई, (4) बिन्द, (5) सरमेरा, (6) अस्थावां	अस्थावां	हिलसा

इस हद तक पूर्व में निर्गत संकल्प को संशोधित किया जाता है।

संकल्प संख्या 4952, दिनांक 30 अक्टूबर 2009 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

सं० 5/सह./फ.बी.-15/07-5985
सहकारिता विभाग

संकल्प

9 दिसम्बर 2009

विषय :- पैक्सों के माध्यम से बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन।

राज्य के कृषकों के हित में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1 अप्रिल 2000 से लागू की गयी है। इसी तरह पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना रब्बी 2007-08 से राज्य के कुछ जिलों में लागू की जाती रही है। रब्बी 2009-10 मौसम की चयनित फसलों के बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्टूबर 2009 एवं पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विभागीय संकल्प संख्या 4952, दिनांक 30 अक्टूबर 2009 निर्गत की गयी है।

2. उक्त योजनाओं के तहत ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों को अपनी फसलों का बीमा राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निकटतम शाखाओं के माध्यम से कराने का प्रावधान है। इन योजनाओं के तहत गैर-ऋणी कृषकों का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स को भी कतिपय शर्तों के साथ रब्बी 2009-10 मौसम में बीमा कार्य करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। योजना के तहत गठित राज्यस्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 14 सितम्बर 2009 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स को निम्नांकित शर्तों के अधीन बीमा एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

- (i) जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स, जिनकी कुल जमा पूँजी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10.00 (दस) लाख रुपये या इससे अधिक है, वैसे पैक्स को गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा एजेंसी के रूप में फसल बीमा करने की मान्यता दी जाती है। ऐसे पैक्स को नीचे अंकित व्यवस्था के तहत सेवा शुल्क का हिस्सा देय होगा।
- (ii) वैसे पैक्स, जिनकी जमा पूँजी 10.00 (दस) लाख रुपये से कम, परन्तु वहाँ वर्तमान वित्तीय वर्ष में जमा वृद्धि का व्यवसाय हुआ है, वे पैक्स भी फसल बीमा हेतु बीमा एजेंसी का कार्य कर सकेंगे परन्तु, ऐसे पैक्स को सेवा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका (i) एवं (ii) के अनुसार बीमा एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु योग्य पैक्स प्रीमियम की राशि एवं घोषणा-पत्र के साथ बीमा प्रस्ताव निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि. (जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है) के माध्यम से बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे।
- (iv) उपर्युक्त कंडिका (i) की श्रेणी में आने वाले पैक्स द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बैंक में जमा की गयी प्रीमियम की राशि का 2.00 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में पैक्स को तथा अवशेष 0.5 प्रतिशत सम्बन्धित बैंक के लिए अनुमान्य होगा।

इसी तरह पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत उपर्युक्त कंडिका (i) की श्रेणी में आने वाले पैक्स द्वारा बैंक में जमा की गयी प्रीमियम की राशि (सेवा कर छोड़कर) का 3.00 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में संबंधित पैक्स को तथा 2.00 प्रतिशत संबंधित बैंक के लिए अनुमान्य होगा।

- (v) वे ही सदस्य गैर-ऋणी कृषक के रूप में अपनी फसलों का बीमा पैक्स के माध्यम से करा सकेंगे, जो उक्त पैक्स के सदस्य होंगे तथा पैक्स में उनका बचत खाता संधारित होगा। फसल बीमा प्रीमियम तथा फसल क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सम्बन्धित बीमित सदस्य के पैक्स में खुले खाता के माध्यम से ही किया जायेगा। पैक्स प्रीमियम की राशि कृषक के बचत खाता से debit करके सहकारी बैंक की शाखा में जमा करेंगे।
- (vi) ऐसे बीमित, गैर-ऋणी कृषकों के प्रस्ताव को पैक्स के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत निदेशक द्वारा अनुशंसित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (vii) पैक्स द्वारा बीमा प्रीमियम प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी जो गैर-ऋणी कृषकों के लिए निर्धारित है। परन्तु बीमा प्रीमियम के मद में प्राप्त राशि तथा घोषणा-पत्र कृषकों की सूची के साथ 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सहकारी बैंक की शाखा में पैक्सों द्वारा निश्चित रूप से जमा किया जाएगा। विलम्ब से प्रीमियम की राशि जमा करने पर सम्बन्धित कृषकों को बीमा का लाभ देय नहीं होगा तथा इसके कारण क्षतिपूर्ति अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंधक इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

3. उक्त शर्तों के साथ-साथ गैर-ऋणी कृषकों का बीमा करने से पूर्व पैक्स द्वारा निम्नांकित तथ्यों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :-

- (क) कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया हो तथा उपर्युक्त कंडिका-2(vi) के अनुसार अनुशंसित की गयी हो,

- (ख) लघु एवं सीमान्त कृषक के मामले में अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र जमा किया गया हो, अन्यथा ऐसे कृषकों को प्रीमियम पर अनुदान अनुमान्य नहीं होगा तथा उन्हें पूर्ण प्रीमियम की राशि जमा करनी होगी,
- (ग) पैक्स की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर यह उल्लेख किया जाए कि बीमित व्यक्ति द्वारा फसल लगायी गई है।
4. (i) उपर्युक्त कंडिका 2(i) एवं 2(ii) के अनुसार पैक्सों को सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी/महाप्रबंधक (केवल आई.सी.डी.पी. के तहत चयनित पैक्स के लिए) द्वारा चिह्नित किया जाएगा। तदनुसार चिह्नित ऐसे पैक्स बीमा एजेंसी का कार्य कर सकेंगे।
- (ii) उपर्युक्त कंडिका 2(i) एवं 2(ii) में अंकित 10.00 (दस) लाख रुपये की जमा पूँजी में संस्थागत जमा राशि की गणना नहीं की जाएगी।
- (iii) वर्तमान में रब्बी 2009-10 मौसम के लिए उपर्युक्त कंडिका-2(i) के अनुसार वैसे पैक्स ही योग्य होंगे जिनकी जमा पूँजी दिनांक 30 सितम्बर 2009 को 10.00 (दस) लाख रुपये या इससे अधिक हो।
5. सम्बन्धित बैंक द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं प्रीमियम आदि की राशि की जाँच करने के पश्चात् ही एतद्सम्बन्धी कागजात बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाएगा।
6. बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित बैंक ससमय पैक्स के खाता में क्रेडिट करेंगे तथा लाभान्वित कृषकों के नाम एवं क्षतिपूर्ति की राशि पैक्स अपने सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ताकि लाभान्वित कृषकों को शीघ्र क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो सके।
7. बीमा कराने की शेष सभी प्रक्रियायें इस निमित्त समय-समय पर खरीफ एवं रब्बी मौसम के लिए निर्गत की गयी अधिसूचना के अनुरूप रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

सहकारिता विभाग

शुद्धि-पत्र

25 नवम्बर 2009

सं० 5/सह0/ फ. बी.-43/2009-5677—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत रब्बी 2009-10 मौसम की चयनित फसलों का बीमा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्टूबर 2009 निर्गत किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 के अन्तर्गत गेहूँ फसल के लिए प्रीमियम की वास्तविक दर 6.50 प्रतिशत रहना चाहिए किन्तु टंकण भूल के कारण उक्त प्रीमियम की दर 6.05 प्रतिशत अंकित हो गया है, जिसे कृपया 6.50 प्रतिशत समझा जाय।

इस हद तक विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्टूबर 2009 को संशोधित किया जाता है। अधिसूचना की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय-आदेश

14 दिसम्बर 2009

सं० स्था0-3, बी-51/ 2008-1696—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2 अप्रैल 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० बौअन कामति भूतपूर्व मेट नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्र-श्री बिनोद कुमार कामति को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी

रूप से वेतनमान रुपए 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री बिनोद कुमार कामति पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० बौअन कामति के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5 अक्टूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री बिनोद कुमार कामति को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री बिनोद कुमार कामति की सेवा-पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री बिनोद कुमार कामति को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

आदेश से,
जयमंगल पासवान,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

15 दिसम्बर 2009

सं० स्था0-3-बी-06/09-1701—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रैल 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० रसीद अहमद अंसारी भूतपूर्व फ्यूज मैन नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के आश्रित पुत्र मो० परवेज अहमद अंसारी को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत कोषरक्षक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 2610-60-3150-65-3540 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. मो० परवेज अहमद अंसारी पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा

लम्बित नहीं रहने तथा स्व० रसीद अमहमद अंसारी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कड़िका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कड़िका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में मो० परवेज अहमद अंसारी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता मो० परवेज अहमद अंसारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु मो० परवेज अहमद अंसारी को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

आदेश से,
जयमंगल पासवान,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

15 दिसम्बर 2009

सं० स्था०-3, बी-18/09-1702—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661 दिनांक 2 अप्रैल 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० राजनारायण ठाकुर भूतपूर्व जंजीरवाहक नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार को नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबोधक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री धर्मेन्द्र कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० राजनारायण ठाकुर के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्टूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री धर्मेन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री धर्मेन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

आदेश से,
जयमंगल पासवान,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2009

सं० के०/कारा/रा०प०-24/08-10887—डा० मो० समीउल्लाह, चिकित्सा पदाधिकारी, मंडल कारा मोतिहारी की सेवायें प्रशासनिक कारणों से उनके पैतृक विभाग यथा—स्वास्थ्य विभाग को वापस की जाती है।

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लगू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुश्री अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 43—571+85-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

15 दिसम्बर 2009

सं० 3/आ2-34/99-मा0-1302—डॉ० रामजी सिंह, तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल में नेशनल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अरेड़, मधुबनी को सत्र 1992-93 से बी० एड० संकाय में स्थायी प्रस्वीकृति/संबंधन की साजिशपूर्वक, अनुशंसा करने संबंधी बरती गयी अनियमितताओं एवं मंत्रिमण्डल निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी संख्या 008/99 दिनांक 11 मई 1999 के संदर्भ में असैनिक सेवा वर्गीकरण, कन्ट्रोल एवं अपील रूल्स के नियम 49(ए) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 500 दिनांक 27 अक्टूबर 1999 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 668 दिनांक 16 दिसम्बर 2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

डॉ० रामजी सिंह, की सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 जनवरी 2002 से विभागीय आदेश 573, दिनांक 22 जुलाई 2002 से उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 36 दिनांक 15 जनवरी 2004 द्वारा उनके पेंशन से 30 प्रतिशत राशि की कटौती के निर्णय पर द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया, परन्तु इसी बीच द्वितीय कारण पृच्छा पूछे जाने के पूर्व ही दिनांक 3 जनवरी 2004 को श्री रामजी सिंह की मृत्यु हो गयी।

चूँकि आरोपित पदाधिकारी डॉ० रामजी सिंह का निधन हो गया है अतः सरकार द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हें देय अवशेष 10 (दस) प्रतिशत पेंशन/उपादान की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार वर्मा,

निदेशक (प्र०)—सह-संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2009

सं० कौन०/भी-129/2009-394-श्री दिनेश चौधरी, बि०वि०से०, सम्प्रति वा०-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अंचल प्रभारी, पूर्णियां के पदस्थापन काल में मे० फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियां द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार "निन्दन" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2000-01 में की जायेगी।

सं० कौन०/भी-129/2009-395-श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, बि०वि०से०, सम्प्रति वा०-कर उपायुक्त, गया अंचल, गया को अंचल प्रभारी, पूर्णियां के पदस्थापन काल में मे० फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियां द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार "निन्दन" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2002-03 में की जायेगी।

सं० कौन०/भी-129/2009-396-श्री प्रभु दयाल प्रसाद, बि०वि०से०, सम्प्रति वा०-कर उपायुक्त, (अंकेक्षण) मुजफ्फरपुर को अंचल प्रभारी, पूर्णियां के पदस्थापन काल में मे० फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियां द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार "निन्दन" की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2006-07 में की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 43-571+20-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>